



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 495]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 1976/कार्तिक 26, 1898

No. 495]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1976/KARTIKA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th November 1976

**S.O. 738(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirtysixth Amendment Order, 1976.

2. In Part 'B' of Schedule I to the Exports (Control) Order 1968, the following item shall be added after item No. 135

"136. Silk carpets and carpets made of Synthetic/mixed and/or blended fibres"

3. In the Exports (Control) Order, 1968, in OGL-3, after item No. 67 the following shall be added :—

1	2	3	4
68.	Silk carpets & carpets made of synthetic/mixed and/or blended fibres.	B-136	Exports allowed to all permissible destinations except to countries having a common land frontier with India.

[No. E(C)O, 1968/AM(215)]

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

### व्यापार मंत्रालय

#### आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1976

क्रा० प्रा० 738 (अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है अर्थात्—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छलीसवां संशोधन आदेश, 1976 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 के भाग "बी" में निम्नलिखित मद को सं० 135 के बाव जोड़ा जाएगा :—

"136. रेशमी दरियां और कृत्रिम/मिश्रित और/या समिश्रित रेशे से बनी हुई दरियां"

3. निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1968 में, खूले सामान्य लाइसेंस-3 में मद सं० 67 के बाव निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
68.	रेशमी दरियां और कृत्रिम/मिश्रित और/या समिश्रित रेशे से बनी हुई दरियां।	बी-136	भारत की सीमा से लगने वाले देशों की साझी भूमि को छोड़ कर सभी गन्तव्य स्थानों के लिए स्वीकार्य है।

[सं० ई (सी) प्रा०, 1968/ए एम (215)]

ए० एस० गिल,  
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976